



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 5, 2019/माघ 16, 1940
No. 41] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 5, 2019/MAGHA 16, 1940

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2019

फा. सं. 3-24/प्रशासन/स्थापना/संशोधन/भर्ती नियम/2011/वॉल्यूम-1.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, परिषद् द्वारा अधिसूचना एफ. संख्या. 37-3/विधिक (iii)/2007 दिनांक 01 नवम्बर, 2007 द्वारा अधिसूचित भर्ती विनियमों में आंशिक संशोधन करते हुए तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 8 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 23 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एतद्वारा इन विनियमों में निम्नलिखित संशोधन करती है।

इन विनियमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (समूह 'क' 'ख' तथा 'ग' पद) (चतुर्थ संशोधन) भर्ती विनियम, 2018 कहा जाएगा। ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

निदेशक के पद के विद्यमान भर्ती विनियमों को तालिका के कॉलम 1-14 में निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा :

क्रमांक	पद का नाम	पद (ओं) की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है	क्या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा वर्षों के जोड़ का लाभ स्वीकार्य है
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
20	निदेशक	कोई बदलाव नहीं	कोई बदलाव नहीं	कोई बदलाव नहीं	कोई बदलाव नहीं	कोई बदलाव नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8.	9.	10.	11.
लागू नहीं	लागू नहीं	कोई बदलाव नहीं	कोई बदलाव नहीं

भर्ती पद्धति – सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, उन श्रेणियों के ग्रेड जिनमें से पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	विभागीय पदोन्नति समिति अथवा चयन समिति का संघटन :
12.	13.	14.
कोई बदलाव नहीं	<p>पदोन्नति :</p> <p>निदेशक/उप सचिव में से, जिन्होंने नियुक्ति के बाद ग्रेड में नियमित आधार पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो</p> <p>प्रतिनियुक्ति :</p> <p>(अ) (i) केन्द्र अथवा राज्य सरकार या विश्वविद्यालय अथवा स्वायत्त निकाय या पी.एस.यू. में पैतृक काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदधारी अधिकारी</p> <p>अथवा</p> <p>(ii) <i>रू0 12000—16500 (ऐसे अभ्यर्थी जो अकादमिक संस्थाओं में शिक्षण केंद्र में कौरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएस) के द्वारा वेतनमान एवं ग्रेड वेतन के साथ कार्य कर रहे हैं, को पात्र माना जाएगा, यदि वे अन्य योग्यता शर्तों को पूरा करते हों)</i> के वेतनमान में अपने पैतृक काडर/ विभाग में नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा</p> <p>(ब) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों :</p> <p>अर्हता :</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान अथवा गणित अथवा कम्प्यूटर अनुप्रयोग अथवा प्रबंधन व्यवहार विज्ञान सहित, वाणिज्य तथा व्यावसायिक अर्थशास्त्र अथवा अर्थशास्त्र अथवा भेषजी अथवा इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी अथवा वास्तुकला और नगर आयोजना में मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष।</p> <p>अनुभव :</p> <p>(ii) केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अथवा उच्च शिक्षा के अन्य संस्थान अथवा स्वायत्त निकाय अथवा पी.एस. यू. में शिक्षण अथवा अनुसंधान अथवा शैक्षिक नियोजन अथवा प्रशासन, प्रशिक्षण आदि में बारह वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>टिप्पणी 1 : जिन व्यक्तियों के पास डाक्टोरल डिग्री और/अथवा प्रकाशित अनुसंधान कार्य के साथ तकनीकी रिपोर्ट लिखने का प्रमाण है उन्हें अधिमान दिया जाएगा।</p> <p>टिप्पणी 2 : उप सचिव के पद का स्टॉफ निरीक्षण एकक (एस. आई.यू.) द्वारा निर्धारण नहीं किया गया। तथापि नियमित आधार पर अधिकारी इन पदों पर कार्यरत हैं। अतः उन्हें पदोन्नति चैनल में शामिल किया गया है। उप सचिव के वर्तमान तीन पदों का पदनाम परिवर्तित करके उप निदेशक किया गया है तथा उन्हें उप निदेशक के पद के साथ मिला दिया गया है।</p>	कोई बदलाव नहीं।

अन्य सभी पैराग्राफ अपरिवर्तित रहेंगे।

प्रो. आलोक प्रकाश मित्तल, सदस्य सचिव

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2019

F. No. 3-24/Admn/Estt./Amend/RRs/2011/Vol.I.—In partial modification of the Recruitment Regulation notified by the Council vide Notification F.No.37-3/Legal(iii)/2007 dated 1st November 2007 and in exercise of power conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 23 read with Sub-section (1) & (2) of Section 8 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987). The All India Council for Technical Education hereby makes the following amendment to these Regulations.

These Regulations may be called the All India Council for Technical Education (Group “A” “B” and “C” Post) (4th Amendment) Recruitment Regulations, 2018. These will come in force from the dated its publication in the Official Gazette.

Column 1-14 of the table for the post of Director in the existing Recruitment Regulations will read as under:

S. No.	Name of the post	Number of the post	Classification	Scale of the pay	Whether selection or non-selection	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6	7
20	Director	No Change	No Change	No Change	No Change	No Change

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications prescribed for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply, in the case of promotees	Period of probation, if any
8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	No Change	No Change

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made. period of probation, if any	Composition of departmental promotion committee or Selection Committee
12	13	14
No Change	<p>Promotion:</p> <p>From amongst Deputy Director/Deputy Secretary* with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.</p> <p>Deputation:</p> <p>(a) (i) Officers from the Central or State Governments or Universities or Autonomous Bodies or PSUs holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with four years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of Rs.12000-16500 (<i>The candidates working in Academic</i></p>	No Change.

	<p><i>Institutions in teaching cadre having pay scales and grade pay through Career Advancement Scheme (CAS) are considered eligible, if they fulfil all other eligibility conditions) in the parent cadre/ department; and</i></p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p>Qualifications:</p> <p>(i) Master Degree in any of the subjects of Science or Mathematics or Computer application or Management including Behavioural Science, Commerce and Business Economics or Economics or Pharmacy or Engineering and Technology or Architecture and Town Planning from a recognized University or equivalent;</p> <p>Experience:</p> <p>(ii) Twelve years experience in teaching or research, Educational Planning or Administration, Training etc. in Central or State Government University or other Institutions of higher education or Autonomous Bodies or PSUs.</p> <p>Note 1: Preference will be given to the persons with Doctorate Degree and /or published research work with evidence of writing technical reports.</p> <p>*Note 2: The posts of Deputy Secretary have not been assessed by the Staff Inspection Unit(SIU). However, incumbents are working on regular basis on these posts. As such, they are included in the channel of promotion. the existing three pots of Deputy Secretary are redesignated as Deputy Director and merged with the posts of Deputy Director.</p>	
--	---	--

All other paras remain unchanged.

Prof. ALOK PRAKASH MITTAL, Member Secy.